



'समय पर गुणवत्ता उपकरण' पर पश्चिम क्षेत्र
रक्षा उद्योग बैठक का आयोजन किया।

फार्स्ट न्यूज

धीरज साहू के रांची
आवास पर आईटी
टीम की छापेमारी

रांची (आरखड़)। कांग्रेस के
राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के
रांची के रेडियो रोड स्थित आवास पर
पर नौवें दिन भी आईटी (आयकर
पिण्ड) की टीम रेडियो रोड स्थित आवास की जमीन खोदने की तैयारी कर रही है।

आईटी की टीम रेडियो रोड स्थित आवास की जमीन खोदने की तैयारी कर रही है। रांची स्थित आवास पर गुरुवार को भी आईटी टीम की सक्रियता बढ़ी हुई है। अधिकारी लगातार आवासीय परिसर का कांग्रेस के बरीकी से जायजा ले रहे हैं। इससे पहले बुधवार को लोहरदगा रांची और ऑडिंग का घर पर आईटी की टीम ने जियो सर्विलास सिस्टम मशीन के जरिए जमीन की तलाशी ली थी। उल्लेखनीय है कि आयकर की टीम ने गहर छह दिसंबर को धीरज साहू से संवाद कई टिकानों पर छापेमारी की रुपये से भरी 30 अलाइन बरामद की थी। उस दिन से नौटों की गिनती जारी है। जानकारी के अनुसार आज तक 500 करोड़ रुपये रुपये मिले हैं। नौटों के अलावा 17 किलोग्राम आभूषण भी मिले थे।

चिमनी हादसे में 4 मजदूरों की मौत, 3 की हालत गंभीर

गोकाता। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगाना जिले के बरीहाट इलाके में एक ईंट भूट की चिमनी ढह जाने से एक मजदूरों की मौत हो गई। जबकि तीन रात बरीहाट अस्पताल के रूप में की गई है। हादसे के शिकायत दोषी व्यक्ति की दफनाने के दौरान हुई। बरीहाट के एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार कों बताया कि 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और तीन घायलों की अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक मुरक्का गोकाता के बरीहाट सेक्टर की अध्यक्षता कर रहे थे। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने हांगामा शुरू कर दिया। इस पर स्पीकर बीच महात्वात ने कांग्रेस के नौ अन्य सांसदों को भी निलंबित कर दिया गया है।

इन सांसदों को किया गया निलंबित: संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी और संसदीय सभा के एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में गलत बताव के चलते पांच सदस्यों द्वारा प्रथावान, हीची एडेन, जोधिमनी, राम्या हरिदास



सेजा में भर्ती होना चाहता था संसद में घुसपैठी अमोल
टीम एक्शन इंडिया/नई दिल्ली: संसद में घुसपैठ के आरोपी अमोल शिंदे सेना में भर्ती होना चाहता था। इसके लिए उन्हें सेना की कई भर्तीयों में दिसंसा भी लिया था लेकिन उसका चयन नहीं हो पाया। अमोल के मानांकिता ने घुसपैठी की गई। उन्होंने बताया कि अमोल अपने पांच सांसदों को निलंबित किया गया था और अब नौ और सांसदों को भी निलंबित कर दिया गया है।

और डीन कुरियाकोस को निलंबित किया गया। इस दौरान बी महत्वात की अध्यक्षता कर रहे थे। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने हांगामा शुरू कर दिया। इस पर स्पीकर बीच महात्वात ने कांग्रेस के नौ अन्य सांसदों को भी निलंबित कर दिया गया।

निलंबित कर दिया। इनमें बेनी बेहानान, बीके श्रीधरन, मोहम्मद जावेद, पीआर नटराजन, कनिमोई

सुरक्षा चूक के मुद्रे पर

लोकसभा में गुरुवार को जमकर हांगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने खबर नारेबाजी की। इसी दौरान राजस्थान से अपराली पार्टी के सांसद हनुमान बेनीबाल ने लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सुरक्षा में रोध लगाने के मामले के बाद वांछी की सुरक्षा व्यवस्था पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा में ठुकरने वालों तोगों का नाम सागर शर्मा और मनोरंजन थी। हवा में संसद भवन के बाहर से गिरावर कर दिया गया।

एंटीटाइम अवैध अवहेलना है।

उसके बाद उन्हें संसद में

घुसपैठी के बाद उन्हें संसद में

मोदी सरकार कर रही हिमाचल की हर यथा संभव सहायता

टीम एक्शन

इंडिया/हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ कदम की मोदी सरकार हिमाचल की हर यथा संभव सहायता कर रही है और भविष्य में करती रहेगी यह बात सुनानुरुप भाजपा के मंडल अध्यक्ष प्रोफेसर विक्रम राणा जिला परिषद सदस्य कैप्टन रंजीत सिंह मीडिया प्रभारी सुशील भट्टाचार्य मरामंत्री अनल काशल ब जगन काटोचा ने जारी प्रेस विवरण में कही है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि गह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष से



दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़, बादल फ टैने और भूस्खलन के कारण राज्य गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। आपदा से हुए तुकड़ा का जायजा लेने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व हमारे लोकप्रिय सांसद भारत सरकार में मंत्री अनुराग टाकुर ने आजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जैपा नड़ा संग प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और उसे सम्पर्क ही यह बायदा का जायजा था और उसे हिमाचल को इस बायदा का जायजा दिए हैं। उस पर केंद्र सरकार हर सहायता केरोड़ी तक प्रदेश की जनता को

रहत मिल सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से फ टैने राहत 560.80 करोड़ रुपया मूल्य का कायाया थी यहाँ नहीं राशी राशी करता है। आपदा के सुधार व सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने स्वयं जिम्मेदारी ली थी। गांव में आवास व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए ग्रामीण मंत्रालय ने 11000 नए पक्के घरों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि आपदा प्रभावितों के मदद के लिए रोज ब्रह्मा की जनता को ठगने का कार्य में जुट गयी है।

राज्य स्तरीय कॉस कंट्री का द्रायल 17 को

टीम एक्शन इंडिया/ऊना/राजन पुरी

जिला एक्स्ट्रोट संघ द्वारा राज्य स्तरीय कॉस कंट्री का द्रायल इंदिया मैदान ऊना में 17 दिसंबर को सुबह 8 बजे लिया जाएगा। द्रायल में अंडर-14 व 16 के लड़के व लड़कियां हिस्सा ले सकते हैं। यह जानकारी संधं के जिला महाराष्ट्र वित्तीय तिलक राज ने दी। उन्होंने बताया कि अंडर-14 के खिलाड़ी 600 मीटर व लायं जंप, अंडर-18 व 16 के खिलाड़ी 6000 मीटर, अंडर-20 के खिलाड़ी 8000 मीटर व अन्य लड़के व लड़कियां दस हजार मीटर की दौड़ में हिस्सा ले सकते हैं।

जग्जरतमंदों का फायदा सुनिश्चित करने प्रत्येक पंचायत पहुंच रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा: धूमल



टीम एक्शन इंडिया/हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ

हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद (विवेकोर्ट) द्वारा शिक्षा विज्ञान और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी हमीरपुर द्वारा दिया गया एवं निवासन कारोबार फ टैने वाहिनी देंड टेकोलोजीज कम्पनीके जिलों के सहायता से



आयोजित किया जा रहा 31वां राज्य स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन वीरवार को यहाँ एनआईटी परिसर में आरंभ हो गया। उपायुक्त हमीरपुर हेमराज बैरवा ने इस चार दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों के लगभग 600

रायपुर सहोड़ा में सद्व लगाते एक काबू

टीम एक्शन इंडिया/ऊना/राजन पुरी

पुलिस थाना मैहतपुर के तहत रायपुर सहोड़ा में पुलिस ने एक व्यक्ति को सद्व लगाते हुए काबू किया है। पुलिस ने व्यक्ति से नगदी भी बरामद की है। जानकारी के मुताबिक मैहतपुर पुलिस बुधवार देर शाम को रायपुर सहोड़ा रेलवे फाटक के समीप गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने रविंद्र कुमार निवासी बसदेहड़ा को पर्ची ददा सदा व 1080 रुपये की नगदी बरामद की गई। एसपी ऊना आयोजित किया जाने वाले विभिन्न जिलों के लगभग 600

टीम एक्शन इंडिया/ऊना/राजन पुरी

दैनिक न्यूज़ एवं विवेकानंद वशिष्ठ जरूरतमंद और पात्र लोगों को योजना की लाभ जरूरतमंद भविष्य के लिए विकसित भारत यात्रा प्रत्येक पंचायत में पहुंच कर रही है। विश्व भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल बैरवार को बड़सार विधानसभा क्षेत्र की कालौन पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए अधिनियम के तहत मानमाना दर्ज कर जांच शुरू कर रही है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश की 2 लाख 69 हजार पंचायत में पहुंच कर लोगों को केंद्र की लाभकारी योजनाओं की जानकारी तो दे ही रही है और इस दौरान वायद कोइसी दूरी रही कि जिसने में किशन में केंद्र सरकार करने के लिए एसडीआरएक को दो किशन में कुल 360.80 करोड़ रुपय जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा को आरंभ करने के लिए 21 अगस्त 2023 को एनडीआरएफ से रु 200 करोड़ की राशि भी अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। इस से पूर्व केंद्र सरकार को द्वारा प्रत्येक पंचायत को राजत मनलोग कलां में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए एसडीआरएक को दो किशन में कुल 360.80 करोड़ रुपय जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा को आरंभ करने के लिए 21 अगस्त 2023 को एनडीआरएफ से रु 200 करोड़ की राशि भी अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। इस से पूर्व केंद्र सरकार को द्वारा प्रत्येक पंचायत को राजत मनलोग कलां में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए एसडीआरएक को दो किशन में कुल 360.80 करोड़ रुपय जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा को आरंभ करने के लिए 21 अगस्त 2023 को एनडीआरएफ से रु 200 करोड़ की राशि भी अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। इस से पूर्व केंद्र सरकार को द्वारा प्रत्येक पंचायत को राजत मनलोग कलां में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए एसडीआरएक को दो किशन में कुल 360.80 करोड़ रुपय जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा को आरंभ करने के लिए 21 अगस्त 2023 को एनडीआरएफ से रु 200 करोड़ की राशि भी अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। इस से पूर्व केंद्र सरकार को द्वारा प्रत्येक पंचायत को राजत मनलोग कलां में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए एसडीआरएक को दो किशन में कुल 360.80 करोड़ रुपय जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा को आरंभ करने के लिए 21 अगस्त 2023 को एनडीआरएफ से रु 200 करोड़ की राशि भी अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। इस से पूर्व केंद्र सरकार को द्वारा प्रत्येक पंचायत को राजत मनलोग कलां में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए एसडीआरएक को दो किशन में कुल 360.80 करोड़ रुपय जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा को आरंभ करने के लिए 21 अगस्त 2023 को एनडीआरएफ से रु 200 करोड़ की राशि भी अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। इस से पूर्व केंद्र सरकार को द्वारा प्रत्येक पंचायत को राजत मनलोग कलां में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए एसडीआरएक को दो किशन में कुल 360.80 करोड़ रुपय जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा को आरंभ करने के लिए 21 अगस्त 2023 को एनडीआरएफ से रु 200 करोड़ की राशि भी अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। इस से पूर्व केंद्र सरकार को द्वारा प्रत्येक पंचायत को राजत मनलोग कलां में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए एसडीआरएक को दो किशन में कुल 360.80 करोड़ रुपय जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा को आरंभ करने के लिए 21 अगस्त 2023 को एनडीआरएफ से रु 200 करोड़ की राशि भी अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। इस से पूर्व केंद्र सरकार को द्वारा प्रत्येक पंचायत को राजत मनलोग कलां में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए एसडीआरएक को दो किशन में कुल 360.80 करोड़ रुपय जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा को आरंभ करने के लिए 21 अगस्त 2023 को एनडीआरएफ से रु 200 करोड़ की राशि भी अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। इस से पूर्व केंद्र सरकार को द्वारा प्रत्येक पंचायत को राजत मनलोग कलां में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए एसडीआरएक को दो किशन में कुल 360



संपादकीय

जागरूकता से ही रुक सकते हैं महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध

देश में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध गंभीर चिंता का विषय है। महिला अग्रणी की यहा अगर हम बात करें तो महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में बलात्कार, हत्या के साथ बलात्कार, दहेज, तेजाव हमले, आत्महत्या के लिए उकसाना, अपहरण, जबरन शादी, मानव तस्करी, आनलाइन उत्पीड़न जैसे अपराध शामिल किए जा सकते हैं। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 15 प्रतिशत की बढ़ी दर्ज हुई, जबकि बलात्कार के मामले 12 प्रतिशत तक बढ़ गए। वर्ष 2019 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 75 प्रतिशत तक की बढ़ी दर्ज हुई है। यह गंभीर और संवेदनशील है कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो नानी एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2021 में महिलाओं के विरुद्ध प्रति घंटे उनचास अपराध दर्ज किए गए। यानी एक दिन में औसतन छियासी मामले दर्ज किए गए। 2021 में बलात्कार के 31,677 मामले दर्ज हुए, जबकि 2020 में यह संख्या 28,046 थी। यही तरह अगर राज्यवाला महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दर देखी जाए तो राजस्थान (6,337) पहले स्थान पर है, फिर मध्य प्रदेश (2,947), महाराष्ट्र (2,496), उत्तर प्रदेश (2,845) और दिल्ली (1,250) हैं। बहराहल, यानी पाठकों को जानकारी देना चाहांगा कि एक प्रतिशित हिंदी दैनिक में हाल ही में छापी एनसीआरबी (राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो) बताती है कि वर्ष 2022 में यानी कि खिलाफ साल राजस्थान में बलात्कार के 5399 मुकदमे दर्ज हुए, जो कि देश में सर्वाधिक हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो एनसीआरबी के रिपोर्ट में राजस्थान टाप पर है। जानकारी देना चाहांगा कि वर्ष 2022 के दौरान 45,058, वर्ष 2021 के दौरान 40,738 तथा वर्ष 2020 में 34,535 महिला उत्पीड़न केस दर्ज हुए, इनमें जन्मयुवा में वर्ष 2022 में 3479, वर्ष 2021 में 2827 और वर्ष 2020 में 2369 केस दर्ज किए गए। वहां पर बढ़ती ही संवेदनशील और चिंताजनक पहलू यह है कि बलात्कार मामलों को लेकर सुर्खियों में रहे राजस्थान में सर्वाधिक भीलवाड़ा में दर्ज हुए। भीलवाड़ा, भरतपुर, उदयपुर और अजमेर राजस्थान प्रदेश में बलात्कार के सर्वाधिक केस वाले क्षेत्र रहे हैं। यदि यहां आंकड़ों पर गैर करें तो भीलवाड़ा में कुल 301, भरतपुर में 288, उदयपुर में 283, अलवर में 253 तथा अजमेर में 206 बलात्कार के केस पाये गये हैं। कुछ समय पहले कोटड़ी क्षेत्र के भीड़ी कड़ की गूंज पूरे देश में सुनाई ही थी। इन ही नहीं, विधानसभा चुनाव के दौरान भी बलात्कार की घटनाएं सुर्खियों में रहीं। जानकारी देना चाहांगा कि सुनानल क्रांति रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में राजस्थान में बलात्कार के मामलों में भीलवाड़ा जिला पहले, भरतपुर दूसरे तथा उदयपुर जिला तीसरे स्थान पर रहा। राजस्थान में बलात्कार के सर्वाधिक तेजी से घटनाएं घटती हैं। यदि यहां आंकड़ों पर गैर करें तो भीलवाड़ा में कुल 10, उदयपुर में 5, महाराष्ट्र में 12 प्रतिशत तक बढ़ गए। यहां पर बढ़ते अपराध गंभीर चिंता का विषय है।



रोहित माहेश्वरी

“ खास बात यह है कि

अमरीका में छिपे बैठे खालिस्तानी

13 दिसंबर या इससे पहले संसद पर पर

हमले की खुली चेतावनी भी दी थी।

तो क्या पन्नू की धमकी को सुरक्षा

एजेंसियों ने हल्के में लिया। एक युवक

और एक युवती ने संसद के बाहर भी

पीले रंग का धुआं छोड़कर सनसनी

मचाई। सुरक्षा चूक का मामला २२

साल पहले संसद पर हुए आंतकी

हमले तक ही सीमित नहीं है। पूर्व

प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव

गांधी की हत्या भी सुरक्षा में चूक के

घटाक थायरर के बाहर भी

घटाकर लाने में कामयाब कैसे हो गए?

वे हथियार भी जूते में छिपाकर ला सकते

थे। खास बात यह है कि अमरीका में छिपे

बैठे खालिस्तानी आंतकीर्णी गुरुपतंत

सिंह पन्नू ने 13 दिसंबर या इससे पहले

संसद पर हुए हमले की खुली चेतावनी भी दी

थी। तो क्या पन्नू की धमकी को सुरक्षा

एजेंसियों में कुछ मैलिंग हुई?

अरेस्ट कर लिया है। पुलिस को शक है कि इसी के घर हमले की प्लानिंग हुई थी। छठे व्यक्ति का नाम ललित ज्ञानी बताया जा रहा है, जो युरुग्राम में रहता था। यह फिलहाल फरार है। पुलिस ने बताया कि सभी 6 लोग अनलाइन मिले थे। ऐसा कांड सूत्र नहीं मिला, जिससे ये अंदाज लगे कि इनका संबंध किसी आंतकी संग नहीं है।

कूदने वाले युवकों के नाम सागर व

मनारंजन बताए गए। सागर शर्मा उत्तर

प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने

वाला है। सागर शर्मा के बारे में मिली

जानकारी की मुताबिक, सागर शर्मा

लखनऊ के अलमबाग के रामगढ़न का

रहने वाले आंतकी नहीं है।

एक युवक और एक युवती ने संसद के बाहर भी

पीले रंग का धुआं छोड़कर लाए

ताजा घोषणा की तरफ आंतकी के बाद

संसद के सुरक्षा तंत्र में आमूल-चूल

परिवर्तन किये गए हैं, लेकिन लगता है

संसद का आंतरिक सुरक्षा तंत्र इस

तरह की घटना के लिये तैयार नहीं था।

हालांकि, सुरक्षा बोले ने पोचा

आंतकीर्णीयों को मार गिराया था।

लोकसभा की ताजा घटना की तरह

का नहीं हुआ है लेकिन इसने

हमारी सुरक्षा व्यवस्था की तरफ आंतकीर्णीयों को

एक युवक के बाद भी उसने देखा

रहने वाले आंतकीर्णीयों को देखा

है। यह अपने देखने के बाद भी उसने

देखा है कि यह आंतकीर्णीयों को

देखा है। यह अपने देखने के बाद भी

उसने देखा है कि यह आंतकीर्णीयों को

देखा है। यह अपने देखने के बाद भी

उसने देखा है कि यह आंतकीर्णीयों को

देखा है। यह अपने देखने के बाद भी

उसने देखा है कि यह आंतकीर्णीयों को

देखा है। यह अपने देखने के बाद भी

उसने देखा है कि यह आंतकीर्णीयों को

देखा है। यह अपने देखने के बाद भी

उसने देखा है कि यह आंतकीर्णीयों को

देखा है। यह अपने देखने के बाद भी

उसने देखा है कि यह आंतकीर्णीयों को

देखा है। यह अपने देखने के बाद भी

उसने देखा है कि यह आंतकीर्णीयों को

देखा है। यह अपने देखने के बाद भी

उसने देखा है कि यह आंतकीर्णीयों को

देखा है। यह अपने देखने के बाद भी

उसने देखा है कि यह आंतकीर्णीयों को

देखा है। यह अपने देखने के बाद भी

उसने देखा है कि यह आंतकीर्णीयों को

देखा है। यह अपने देखने के बाद भी

उसने देखा है कि यह आंतकीर्णीयों को

देखा है। यह अपने देखने के बाद भी

उसने देखा है कि यह आंतकीर्णीयों को

देखा है। यह अपने देखने के बाद भी

उसने देखा है कि यह आंतकीर्णीयों को

देखा है। यह अपने देखने के बाद भी

उसने देखा है कि यह आंतकीर्णीयों को

देखा है। यह

न्यूज पलैथ

घुटने व कुल्हे का निशुल्क स्वास्थ्य शिविर 16 दिसंबर को

टीम एक्शन इंडिया/करनाल/राजकुमार शर्मा

विर्क अस्पताल तथा सुख-द्रुग स्वास्थ्य द्वारा घुटने व कुल्हे का निशुल्क मैडिकल कंपैं 16 दिसंबर को सुख 10 बजे

विर्क अस्पताल में आयोजित किया जायगा। यह कैंप लोपहर

एक बजे तक रहेगा। घुटने व कुल्हे के स्पेशलिस्ट डा.

बलबीर विर्क तथा डा. दक्ष शर्मा कैंप में मरीजों की जांच

करेंगे। यह जानकारी समाजसेवी प्रेषण गावा ने दी है। उन्होंने बताया कि मैडिकल कंपैं में एकसे भी सहित विभिन्न टेस्ट निशुल्क किए जाएंगे। उन्होंने शहर के सभी लोगों से शिविर में लाभ उठाने की आपील की।

संजौली बैनर्जी को ब्रिटेन के किंग

प्रिंस चार्ल्स ने रिसेप्शन का दिया

न्यौता

टीम एक्शन इंडिया/करनाल/राजकुमार शर्मा

अंतरिक्ष परी स्थानीय कल्पना चाला की तरह कार्य की धरा की एक ओर होनहार, काबिल और जुझारू बेटी संजौली बैनर्जी को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स सरकार ने अवार्ड के साथ-

साथ खास मेहमान की तरह रिसेप्शन का न्यौता दिया है।

यूके से डायाना, सुयुक रास्ट संघ और मोसाया से सुयुक रास्ट पुरकार हासिल करने वाली संजौली बैनर्जी ऐसा

विशेष न्यौता हासिल करने वाली देश की सर्वोच्च न्यौता पर बुआया है। विशेष स्तर पर कराना का नाम आसमां पर ले

जाने के लिए बरसों से लिंग समानता, शिक्षा, पर्यावरण व

स्वास्थ्य की अलख जगा रही संजौली बैनर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाले इस समान का थ्रैफ अपने शिक्षक व

वित्तक पिता मिहि बैनर्जी व माता गण बैनर्जी की प्रेरणा को देती है। आजानी की 75 वार्ष मृत्युवर्ष के अवार्ड भारत व ब्रिटेन की अर्च 74 पारस्पर्य मूल्यवानों को भी

खास मेहमान बनकर यहा रिसेप्शन का न्यौता दिया गया है,

लेकिन हरियाणा व असामस के राज्यों से ऐसा विशेष

समान हासिल करने वाली संजौली अकेली महिला है। बकौल संजौली में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर

पहुंचने जाने से खुश हूँ। मैं यूनियों की शिक्षा में विशेष रख्यां हूँ, मेरा दैविक काम सामाजिक काम या स्वास्थ्य का रूप से जगरूक और सशक्त होना है, एक युवा विकासी और इस देश के नारायण के रूप में ये मेरी प्रति जिम्मेदारी भी है।

सफलता और मुकाम यूँ चलकर नहीं आते इसके लिए अथक गंभीर प्रयास करने पड़ते हैं और संजौली बैनर्जी ये प्रयास लगातार मात्र 7 साल की उम्र से कर रही है। इस

कड़ी में एक संगठनीय कार्यक्रम के रूपांतर भी इसके लिए अथक गंभीर प्रयास करने के रूप में ये मेरी प्रति जिम्मेदारी भी है।

पुलिस जांच में पाया गया कि आरोपी अमित ने शिक्षकता सुनित वासी की मोटरसाइकिल 4

अक्टूबर को छोटी बुल तरावडी से देश के नारायण के रूप में ये मेरी प्रति जिम्मेदारी भी था।

इस संबंध में नामांतुम आरोपी के खिलाफ थाना तरावडी में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी अमित से

पूछताह में पाया गया कि वह चोरी के मुकदमे में पहले ही जेल में बंद है और

पैसों के लालच में उसने चोरी की वारदात

इस कड़ी में संजौली बैनर्जी ने 2004 में कन्या धून्हा के खिलाफ समुदायों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इसके अलावा संजौली अपनी बहन के साथ मिलकर उन बच्चों को पढ़ाया जा पड़ता है, तो यादों वाले इसके लिए विशेष अंदाज देती हैं, लेकिन उनके अंदर आरोपी की जांच जारी है।

सिलासिला बदलता जारी है। ये स्कूल अंदर दिल्ली के रसम एरिया में बढ़ते रहा है। दोनों बहने सामुहिक रूप से दो लाख से अधिक लोगों ने शिक्षा की अपनी बहन के लिए देशभर में हजारों स्वच्छता उत्पाद बांटे हैं। यही नहीं संजौली को एक दिन के लिए आस्ट्रेलियां संयुक्त और सामाजिक कार्य में स्वतंत्रता संजौली बैनर्जी ने लिया।

परिवर्णन व स्वास्थ्य पर जागरूकता की अलख जगाने के लिए विभिन्न समुदायों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इसके अलावा संजौली अपनी बहन के साथ मिलकर उन बच्चों को पढ़ाया जा पड़ता है, तो यादों वाले इसके लिए विशेष अंदाज देती हैं, लेकिन उनके अंदर आरोपी की जांच जारी है।

सिलासिला बदलता जारी है। ये स्कूल अंदर दिल्ली के रसम एरिया में बढ़ते रहा है। दोनों बहने सामुहिक रूप से दो लाख से अधिक लोगों ने शिक्षा की अपनी बहन के लिए देशभर में हजारों स्वच्छता उत्पाद बांटे हैं। यही नहीं संजौली को एक दिन के लिए आस्ट्रेलियां संयुक्त और सामाजिक कार्य में स्वतंत्रता संजौली बैनर्जी ने लिया।

परिवर्णन व स्वास्थ्य पर जागरूकता की अलख जगाने के लिए विभिन्न समुदायों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इसके अलावा संजौली अपनी बहन के साथ मिलकर उन बच्चों को पढ़ाया जा पड़ता है, तो यादों वाले इसके लिए विशेष अंदाज देती हैं, लेकिन उनके अंदर आरोपी की जांच जारी है।

सिलासिला बदलता जारी है। ये स्कूल अंदर दिल्ली के रसम एरिया में बढ़ते रहा है। दोनों बहने सामुहिक रूप से दो लाख से अधिक लोगों ने शिक्षा की अपनी बहन के लिए देशभर में हजारों स्वच्छता उत्पाद बांटे हैं। यही नहीं संजौली को एक दिन के लिए आस्ट्रेलियां संयुक्त और सामाजिक कार्य में स्वतंत्रता संजौली बैनर्जी ने लिया।

परिवर्णन व स्वास्थ्य पर जागरूकता की अलख जगाने के लिए विभिन्न समुदायों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इसके अलावा संजौली अपनी बहन के साथ मिलकर उन बच्चों को पढ़ाया जा पड़ता है, तो यादों वाले इसके लिए विशेष अंदाज देती हैं, लेकिन उनके अंदर आरोपी की जांच जारी है।

सिलासिला बदलता जारी है। ये स्कूल अंदर दिल्ली के रसम एरिया में बढ़ते रहा है। दोनों बहने सामुहिक रूप से दो लाख से अधिक लोगों ने शिक्षा की अपनी बहन के लिए देशभर में हजारों स्वच्छता उत्पाद बांटे हैं। यही नहीं संजौली को एक दिन के लिए आस्ट्रेलियां संयुक्त और सामाजिक कार्य में स्वतंत्रता संजौली बैनर्जी ने लिया।

परिवर्णन व स्वास्थ्य पर जागरूकता की अलख जगाने के लिए विभिन्न समुदायों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इसके अलावा संजौली अपनी बहन के साथ मिलकर उन बच्चों को पढ़ाया जा पड़ता है, तो यादों वाले इसके लिए विशेष अंदाज देती हैं, लेकिन उनके अंदर आरोपी की जांच जारी है।

सिलासिला बदलता जारी है। ये स्कूल अंदर दिल्ली के रसम एरिया में बढ़ते रहा है। दोनों बहने सामुहिक रूप से दो लाख से अधिक लोगों ने शिक्षा की अपनी बहन के लिए देशभर में हजारों स्वच्छता उत्पाद बांटे हैं। यही नहीं संजौली को एक दिन के लिए आस्ट्रेलियां संयुक्त और सामाजिक कार्य में स्वतंत्रता संजौली बैनर्जी ने लिया।

परिवर्णन व स्वास्थ्य पर जागरूकता की अलख जगाने के लिए विभिन्न समुदायों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इसके अलावा संजौली अपनी बहन के साथ मिलकर उन बच्चों को पढ़ाया जा पड़ता है, तो यादों वाले इसके लिए विशेष अंदाज देती हैं, लेकिन उनके अंदर आरोपी की जांच जारी है।

सिलासिला बदलता जारी है। ये स्कूल अंदर दिल्ली के रसम एरिया में बढ़ते रहा है। दोनों बहने सामुहिक रूप से दो लाख से अधिक लोगों ने शिक्षा की अपनी बहन के लिए देशभर में हजारों स्वच्छता उत्पाद बांटे हैं। यही नहीं संजौली को एक दिन के लिए आस्ट्रेलियां संयुक्त और सामाजिक कार्य में स्वतंत्रता संजौली बैनर्जी ने लिया।

परिवर्णन व स्वास्थ्य पर जागरूकता की अलख जगाने के लिए विभिन्न समुदायों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इसके अलावा संजौली अपनी बहन के साथ मिलकर उन बच्चों को पढ़ाया जा पड़ता है, तो यादों वाले इसके लिए विशेष अंदाज देती हैं, लेकिन उनके अंदर आरोपी की जांच जारी है।

सिलासिला बदलता जारी है। ये स्कूल अंदर दिल्ली के रसम एरिया में बढ़ते रहा है। दोनों बहने सामुहिक रूप से दो लाख से अधिक लोगों ने शिक्षा की अपनी बहन के लिए देशभर में हजारों स्वच्छता उत्पाद बांटे हैं। यही नहीं संजौली को एक दिन के लिए आस्ट्रेलियां संयुक्त और सामाजिक कार्य में स्वतंत्रता संजौली बैनर्जी ने

